




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRO

स्वीकृत इस बात के बहिर्न ही जातो है। कि
कारण-परम में सुनि के स्वाधिरव और वही
सुनि बीमा निर्धारण बधितियम 1978 के
बधिका क्षेत्र से जनका बीनकल बाहर होने
के कारण में की गी बीनका बधि/मत
बधित हई हो वह स्वाकृति निरस्त कयली
बधिये और वह सयजा बधिये। कि एक
सुधनन से बकले की काइ स्वाकृति नहीं हो
सही हो।

LINE TO DEMARCAT THE CLEAR
PASSAGE OF 6.00M AND REST
3.00M FOR OPEN PARKING FROM
BOUNDARY WALL

BASEMENT FLOOR PLAN WITH PARKING

BUILDERS SIDDHEE VINAYAK INFRA HOME PVT. LTD.
DIRECTOR, GOMDI NEAR/NA S/O LATE. MOTI RAM NEAR/NA
H/O. B. 28/7, NEAR MANAS MANDIR (EXPANGLING), DISTT. VNS

OWNER SIG.

As told Kanan 
_____ _____




ENGINEER SIG

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



WATER TANK PLAN




0 10mm thick P c c Filling
0 10mm Dia Perforated P c c PIPE
First Strata Level or 60 Deep

SECTION ON A-A

UP TO WATER LEVEL 4 57X1 83 X1 5M
DEEP 150 MM BORING UP TO WATER LVL
RECHARGE BORE WELL



RECHARGE
BORE WELL



SECTION A- B



KEY PLAN NOT TO SCALE

OWNER - SRI UMESH KUMAR, NIRMAL KUMAR, YAMAL KUMAR,
ASHOK KUMAR, DIGTI, VARANASI

GROUP HOUSING BUILDING PLAN OF S.M. PLOT NO. 45 (PART. 50, PART. 51, PART. 52)
(PART. 53, PART. 54, PART. 55, PART. 56, PART. 57, PART. 58, PART. 59, PART. 60)
BEARING PREMISES NO. C 32/9 (C 32/9A, C 32/9B, C 32/9C, C 32/9D, C 32/9E, C 32/9F, C 32/9G, C 32/9H, C 32/9I, C 32/9J, C 32/9K, C 32/9L, C 32/9M, C 32/9N, C 32/9O, C 32/9P, C 32/9Q, C 32/9R, C 32/9S, C 32/9T, C 32/9U, C 32/9V, C 32/9W, C 32/9X, C 32/9Y, C 32/9Z)
WARD, BARCANA, DEHAT AMANAT, DIST. VARANASI

BUILDING SUDHREE VINAYAK INFRA HOME PVT LTD
DONT FOR GROUND REVENUE S/O LATE MOTI RAM KEJRIWAL
PLT B S/O MAHA MANJAS MANDIR DURGAKUND DISTT NAG.

AREA CHART	
TOTAL PLOT AREA	2722.91
ROAD WIDENING AREA	117.20
NET PLOT AREA	2605.71
BAZAR STREET LAND AREA	1170.80
STILT PARKING COVD OF	408.13
BAZAR STREET COVD OF	284.84
BAZAR STREET COVD OF	284.84
COVERED AREA AT F FL	408.13
COVERED AREA AT S FL	680.25
COVERED AREA AT TH FL	680.25
COVERED AREA AT FOTH FL	680.25
COVERED AREA AT FIFTH FL	680.25
COVERED AREA AT SIXTH FL	680.25
COVERED AREA AT SEVENTH FL	680.25
COVERED AREA AT EIGHTH FL	680.25
COVERED AREA AT NINTH FL	500.15
COVERED AREA AT TENTH FL	408.27
TOTAL COVERED AREA	6505.98
TOTAL OPEN AREA	1858.45

MUMTY & LIFT MACHINE ROOM AREA	=	36 14	SQM
F.A.R.	=	2 49	
BASEMENT FLOOR AREA	=	1398 47	SQM
TOTAL UNITS = FIRST FLOOR	=	3 UNITS	
SECOND TO EIGHTH FLOOR X 5 X 1 FLOORS	=	35 UNITS	
NINTH & TENTH FLOORS X 4 X 2	=	8 UNITS	
TOTAL UNITS =	=	46 UNITS	
GROUND COVERAGE AT	=	27 14 %	
PARKING	=	91 NOS	
HEIGHT OF BUILDING	=	33 00 M	

ENGINEER SIG



Scanned by CamScanner